



# **BULANDSHAHR POLICE**



दिनांक 16 अगस्त 2022

थाना नरसेना

**मोबाइल लूट/चोरी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी किए गए 07 मोबाइल फोन, 02 बाइक एवं अवैध असलहा बरामद।**

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 15/16-08-2022 की रात्रि में थाना नरसेना पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर मोबाइल लूट/चोरी करने वाले गिरोह के 06 शातिर सदस्यों को 02 मोटरसाइकिल एवं लूट/चोरी किये गये 07 मोबाइल फोन, अवैध असलहा आदि सहित गिरफ्तार किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. हरीश पुत्र राकेश लौधी निवासी सेहल थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
2. लवलित पुत्र सतबीर निवासी उपरोक्त।
3. संजय पुत्र धर्मसिंह निवासी उपरोक्त
4. हरिओम पुत्र लखमीचन्द निवासी भदसियाना थाना बहादुरगढ जनपद हापुड
5. रिकू पुत्र सोमपाल सिंह निवासी उपरोक्त
6. अनिल पुत्र रामपाल निवासी शंकरटीला थाना बहादुरगढ जनपद हापुड

**बरामदगी-**

- 1- चोरी/लूट के 07 मोबाइल फोन(विभिन्न कम्पनी)
- 2- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर नम्बर HR-26EM-3626 (गरुग्राम हरियाणा से चोरी)
- 3- 01 मोटसाइकल पैशन प्रो नं0 DL-7SCF-4250 (एमवीएक्ट में सीज)
- 3- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 3- 03 नाजायज चाकू

**गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बारी बारी से गुट बनाकर अलग-अलग बाइकों पर सवार होकर राह चलते लोगों को चाकू व तमंचो से डराकर उनके मोबाइल फोन लूट लेते हैं। इस प्रकार लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद मोबाइल फोन का पासवर्ड तुडवाकर अनजान लोगो को बेच देते हैं तथा जो पैसे मिलते है उनको आपस में बांट लेते हैं।**

अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन में से एक रियलमी मोबाइल फोन को अभियुक्तों द्वारा 07-08-2022 को थाना नरसेना क्षेत्रांतर्गत बरवाला व चन्दियाना के बीच एक साइकिल सवार से लूटा था। जिसके सम्बन्ध में थाना नरसेना पर मु0अ0सं0 201/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। दूसरा मोबाइल INFINIX 31 PRO को दिनांक 31-07-2022 को थाना नरसेना क्षेत्रांतर्गत ग्राम दौलतपुर के जंगल से एक दूधिया की मोटरसाइकिल से चोरी किया था जिसके सम्बन्ध में थाना नरसेना पर मुअसं-202/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। तीसरा मोबाइल फोन INFINIX NOT दिनांक 14-08-2022 को थाना खानपुर क्षेत्र में एचपी पेट्रोल पम्प से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना खानपुर पर मुअसं-220/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। चौथा मोबाइल फोन वीवो-19 को दिनांक 15-06-2022 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र से अंसारी फार्म हाउस से चोरी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-425/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा शेष बरामद 03 मोबाइल फोन को बुलन्दशहर के आस पास के क्षेत्रों से अन्य लोगो से लूट/चोरी किए गये हैं जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तों से बरामद स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को अभियुक्तों द्वारा थाना उद्योग विहार गुरुग्राम हरियाणा क्षेत्र से चोरी करना बताया है जिसके सम्बन्ध में थाना उद्योग विहार पर मु0अ0सं0 154/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं। तथा दूसरी मोटरसाइकिल पैशन एक्स प्रो गिरफ्तार अभियुक्त संजय की हैं जिसे एमवीएक्ट मे सीज किया गया हैं। अभियुक्तगण द्वारा बरामद मोटरसाइकिलों का प्रयोग मोबाइल लूट/चोरी की घटनाएं कारित करने में किया जाता था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नरसेना पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

#### अभियुक्त हरीश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 201/22 धारा 392/411 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 202/22 धारा 379/411 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
3. मुअसं 203/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
4. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
5. मुअसं 425/22 धारा 379/411 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर
6. मुअसं 220/22 धारा 379/411 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर

#### अभियुक्त लवलित का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 220/22 धारा 379/411 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर

#### अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 206/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर

#### अभियुक्त हरिओम का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 202/22 धारा 379/411 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 204/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
3. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर

#### अभियुक्त रिकू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 201/22 धारा 392/411 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 202/22 धारा 379/411 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
3. मुअसं 205/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
4. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
5. मुअसं 220/22 धारा 379/411 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर

#### अभियुक्त अनिल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं 207/22 धारा 411/414 भादवि थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर
2. मुअसं 220/22 धारा 379/411 भादवि थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री संजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नरसेना
2. उ0नि0 रमेश चन्द, उ0नि0 रामजीत सिंह
3. कां0 अंकुर कुमार, कां0 दीपक कुमार, कां0 सचिन कुमार, कां0 अमरजीत सिंह
4. सर्विलांस टीम जनपद बुलन्दशहर



मीडिया सैल बुलन्दशहर